



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-26] रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 जून, 2025 ई0 (ज्येष्ठ 17, 1947 शक सम्वत्) [संख्या-23

विषय—सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्द्रा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु0 3075
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	411—417	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	177—193	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण' ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	173—176	975
स्टोर्स पर्चेज—स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

## भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

## न्याय अनुभाग-1

## अधिसूचना

## नियुक्ति

21 मई, 2025 ई0

संख्या-8 नो-सी/XXXVI-A-1/2025-04 नो-सी/2017-श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री प्रदीप जगूड़ी, अधिवक्ता को दिनांक 21-05-2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय उत्तरकाशी में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री प्रदीप जगूड़ी, अधिवक्ता का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification No. 08 No-C/XXXVI-A-1/2025-04 No-C/2017, dated May 21, 2025.

## NOTIFICATION

## Appointment

May 21, 2025

No. 08 No-C/XXXVI-A-1/2025-04 No-C/2017--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint **Mr. Pradeep Jaguri, Advocate** as Notary for a period of five years with effect from 21-05-2025 for **District Headquarter Uttarkashi** and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of **Mr. Pradeep Jaguri, Advocate** be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

## अधिसूचना

## नियुक्ति

21 मई, 2025 ई0

संख्या-15/नो0ई0/XXXVI-A-1/2025-02 नो0ई0/2005-श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री ओम प्रकाश उनियाल, अधिवक्ता को दिनांक 21-05-2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील धनोल्टी, जिला टिहरी गढ़वाल में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री ओम प्रकाश उनियाल का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of **Notification No. 15/No-E/XXXVI-A-1/2025-02 No.-E/2005**, dated May 21, 2025.

NOTIFICATION

Appointment

May 21, 2025

**No. 15/No-E/XXXVI-A-1/2025-02 No.-E/2005**--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Om Prakash Uniyal, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 21-05-2025 for Tehsil Dhanolti, District Tehri Garhwal and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mr. Om Prakash Uniyal be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

अधिसूचना

नियुक्ति

26 मई, 2025 ई०

संख्या-05 नो-F/XXXVI-A-1/2025-03 नो-एफ/2019-श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री खुशहाल सिंह, अधिवक्ता को दिनांक 26-05-2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री खुशहाल सिंह, अधिवक्ता का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of **Notification No. 05 No-F/XXXVI-A-1/2025-03 No-F/2019**, dated May 26, 2025.

NOTIFICATION

Appointment

May 26, 2025

**No. 05 No-F/XXXVI-A-1/2025-03 No-F/2019**--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint **Mr. Khushal Singh, Advocate** as Notary for a period of five years with effect from 26-05-2025 for **District Headquarter Rudraprayag** and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of **Mr. Khushal Singh, Advocate** be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

अधिसूचनानियुक्ति

26 मई, 2025 ई0

संख्या—16 नो—ई/XXXVI-A-1/2025-10 नो—ई/2009—श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या—53, सन् 1952) की धारा—3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री दिनेश चन्द्र सेमवाल, अधिवक्ता को दिनांक 26-05-2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय टिहरी गढ़वाल में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम—8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री दिनेश चन्द्र सेमवाल, अधिवक्ता का नाम उक्त अधिनियम की धारा—4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

प्रदीप पन्त,

प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of **Notification No. 16 No-E/XXXVI-A-1/2025-10 No-E/2009**, dated May 26, 2025.

NOTIFICATIONAppointment

May 26, 2025

**No. 16 No-E/XXXVI-A-1/2025-10 No-E/2009**--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint **Mr. Dinesh Chandra Semwal, Advocate** as Notary for a period of five years with effect from 26-05-2025 for **District Headquarter Tehri Garhwal** and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of **Mr. Dinesh Chandra Semwal, Advocate** be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

PRADEEP PANT,

Principal Secretary, Law-cum-L.R.



## गृह (अधिष्ठान) अनुभाग-03

## अधिसूचना

## नियुक्ति

22 मई, 2025 ई0

संख्या-298977 / XX-3 / 2025-02(06) / 2009-उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा मुख्य अग्निशमन अधिकारी परीक्षा-2024 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के मुख्य अग्निशमन अधिकारी के 01 रिक्त पद (उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित) पर नियुक्ति हेतु की गयी संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में मुख्य अग्निशमन अधिकारी (वेतनमान-56100-177500, लेवल-10) के पद पर इस विज्ञप्ति में अग्रेत्तर प्रस्तारों में उल्लिखित प्रतिबंधों/शर्तों के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र०सं०	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पत्र व्यवहार का पता
1	200001	श्री भावेश चन्द्रा	श्री दिनेश चन्द्रा	फ्लैट न०-601, संजीवनी आनन्दा बिल्डिंग, मांजी का हत्था, पावटा, जोधपुर, राजस्थान। पिन कोड-342006

2- उक्तानुसार नियुक्त अभ्यर्थी की सेवा शर्तें उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त 'उ०प्र० अग्निशमन (राजपत्रित अधिकारी) सेवा नियमावली, 1984' (समय-समय पर यथासंशोधित) तथा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाने वाले अन्य संगत नियमों/आदेशों विनियमित की जायेंगी।

3- उक्त अभ्यर्थी को मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि के दौरान अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित सूचनाओं/प्रमाण-पत्रों के साथ पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में योगदान प्रस्तुत किया जायेगा:-

- 1) केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा पत्र।
- 2) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा पत्र।
- 3) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र/शपथ-पत्र।
- 4) 'इण्डियन ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट, 1923' के प्राविधानों को पढ़े जाने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।
- 5) दो राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों, किन्तु अभ्यर्थी के सम्बन्धी न हों, द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र।
- 6) शैक्षिक योग्यता एवं स्थाई निवास प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।

5- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि के 01 माह के भीतर उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। समुचित कारणों के बिना निर्धारित अवधि के भीतर योगदान न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक/सहमत नहीं है और तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

6- पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा उक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराये जाने से पूर्व 'राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड' से उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा।

7- नियुक्ति के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा यथानिर्धारित आधारभूत प्रशिक्षण/विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त किया जायेगा।

8- अभ्यर्थी की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,  
शैलेश बगौली,  
सचिव।

### राजस्व अनुभाग-3

#### अधिसूचना

23 मई, 2025 ई0

संख्या 189/XVIII(3)/2025-12(2)/2011 TC-राज्यपाल, उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 3, सन् 1901) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित ग्राम, जिसे अधिसूचना संख्या-520/XVIII(3)/2023-12(02)/2011, दिनांक 11 सितम्बर, 2023 द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के अधीन रखा गया था, में सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियायें इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से बन्द हो जायेंगी :-

#### अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम का नाम
1	2	3	4
ऊधमसिंह नगर	काशीपुर	काशीपुर	प्रतापपुर

आज्ञा से,  
डॉ० सुरेन्द्र नारायण पाण्डे,  
सचिव, राजस्व।

In pursuance of the provision of Clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Notification No. 189/XVIII(3)/2025-12(02)/2011 TC**, dated May 23, 2025 for general information.

#### NOTIFICATION

May 23, 2025

**No. 189/XVIII(3)/2025-12(02)/2011 TC**--In exercise of the powers conferred by section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901(U.P. Act, No. 03 of 1901), (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to declare that the Survey and Record Operation in the village mentioned in the Schedule below, which were placed under Survey and Record Operation Vide Notification No. 520/XVIII(3)/2023-12(02)/2011, dated: 11 September 2023, shall be closed with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette. :-

#### Schedule

District	Tehsil	Pargana	Name of Village
1	2	3	4
Udham Singh Nagar	Kashipur	Kashipur	Pratappur

By Order,  
DR. SURENDRA NARAYAN PANDEY,  
Secretary, Revenue.

## गृह (अधिष्ठान) अनुभाग-3

## कार्यालय-आदेश

13 मई, 2025 ई0

संख्या-296882/XX(3)/2025/08(11) 2016-उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार विभाग में तैनात समूह 'क' के निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख 'स्तम्भ-3' में उल्लिखित वर्तमान तैनाती के स्थान से 'स्तम्भ-4' में उल्लिखित नवीन तैनाती के स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	श्री जसवीर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, श्रेणी-01 (पुलिस दूरसंचार)	देहरादून परिक्षेत्र, देहरादून।	पुलिस संचार मुख्यालय, देहरादून।
2	श्री मुकेश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक, श्रेणी-01 (पुलिस दूरसंचार)	देहरादून परिक्षेत्र, देहरादून।	पुलिस संचार प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून।
3	श्री सुनील नेगी, अपर पुलिस अधीक्षक, श्रेणी-02 (पुलिस दूरसंचार)	पुलिस संचार मुख्यालय, देहरादून।	देहरादून परिक्षेत्र, देहरादून/ Dial 112
4	श्री हिमांशु काण्डपाल, अपर पुलिस अधीक्षक, श्रेणी-02 (पुलिस दूरसंचार)	पुलिस संचार मुख्यालय, देहरादून।	पिथौरागढ़ परिक्षेत्र, पिथौरागढ़।

2- उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल वर्तमान तैनाती स्थल से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करते हुए गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

अपूर्वा पाण्डेय,  
अपर सचिव।



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 जून, 2025 ई0 (ज्येष्ठ 17, 1947 शक सम्वत्)

### भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

### HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

#### Corrigendum

#### NOTIFICATION

March 21, 2025

**No. 02/XIV/a-33/Admin.A/2017--**This is with reference to the earlier issued notification No. 256/XIV/a-33/Admin.A/2017 dated 26.06.2024 of the court regarding earned leave of **Ms. Minakshi Dubey**, Civil Judge (Jr. Div.), Ramnagar District Nainital.

In said notification, the phrase “**Child care leave for 10 days w.e.f. 04.05.2024 to 13.05.2024**” be read as “**earned leave for 10 days w.e.f. 04.05.2024 to 13.05.2024**”.

#### Corrigendum

#### NOTIFICATION

March 21, 2025

**No. 03/XIV/36/Admin.A/2008--**This is with reference to the earlier issued notification No. 446/XIV/36/Admin.A/2008 dated 30.12.2024 of the court regarding child care leave of **Ms. Sangeeta Rani**, Additional District & Sessions Judge Fast Track Special Court (FTSC) POCSO, U.S. Nagar.

In said notification, the phrase “**Child care leave for 14 days w.e.f. 17.09.2024 to 30.09.2024**” be read as “**child care leave for 14 days w.e.f. 14.10.2024 to 28.10.2024** with permission to prefix 10.10.2024 to 13.10.2024 as Dussehra holidays.

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

February 17, 2025

No. 12/XIV/57/Admin.A/2003--Shri Ajay Chaudhary, District & Sessions Judge, Pauri Garhwal is hereby sanctioned paternity leave for 15 days w.e.f. 18.11.2024 to 02.12.2024 with permission to prefix 17.11.2024 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

February 17, 2025

No. 13/XIV-a-41/Admin.A/2020--Shri Ravi Arora, Judicial Magistrate, Almora is hereby sanctioned earned leave of 26 days w.e.f. 16.12.2024 to 10.01.2025 with permission to suffix 14.12.2024 & 15.12.2024 as second Saturday & Sunday holidays and suffix 11.01.2025 & 12.01.2025 as second Saturday & Sunday holidays respectively.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITALNOTIFICATION

February 19, 2025

No. 15/UHC/Admin.A-2/2025--Shri Manoj Garbyal, Registrar (Judicial), High Court of Uttarakhand, Nainital is transferred and posted as 1<sup>st</sup> Additional District & Sessions Judge, Kashipur, District Udham Singh Nagar vice Shri Ritesh Kumar Srivastava.

After taking over the charge of 1<sup>st</sup> Additional District & Sessions Judge, Kashipur, District Udham Singh Nagar, he is attached with High Court of Uttarakhand, Nainital as Officer on Special Duty (OSD), High Court of Uttarakhand, Nainital.

NOTIFICATION

February 19, 2025

No. 16/UHC/Admin.A-2/2025--Shri Ritesh Kumar Srivastava, 1<sup>st</sup> Additional District & Sessions Judge, Kashipur, District Udham Singh Nagar is posted as 2<sup>nd</sup> Additional District & Sessions Judge, Kashipur, District Udham Singh Nagar in the vacant Court.

NOTIFICATION

February 19, 2025

**No. 17/UHC/Admin.A-2/2025**--Shri Dharmendra Singh Adhikari, 2<sup>nd</sup> Additional District & Sessions Judge, Dehradun is transferred and posted as Registrar (Judicial), High Court of Uttarakhand, Nainital, vice Shri Manoj Garbyal.

Above orders will come into force with immediate effect.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

KAHKASHA KHAN,

Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITALNOTIFICATION

February 20, 2025

**No. 18/XIV-a-22/Admin.A/2011**--Ms. Rinky Sahni, 1<sup>st</sup> Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 08 days w.e.f. 16.12.2024 to 23.12.2024 with permission to prefix 14.12.2024 & 15.12.2024 as second Saturday and Sunday holiday.

NOTIFICATION

February 20, 2025

**No. 19/XIV-a-35/Admin.A/2020**--Ms. Deepti Pant, 1<sup>st</sup> Additional Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned maternity leave for 180 days w.e.f. 22.07.2024 to 17.01.2025.

NOTIFICATION

February 20, 2025

**No. 20/XIV/82/Admin.A/2003**--Ms. Pritu Sharma, Additional District Judge, Commercial Court, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 15 days w.e.f. 06.01.2025 to 20.01.2025 with permission to prefix 05.01.2025 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

**कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी,  
हल्द्वानी सम्भाग, नैनीताल।**

**कार्यालयादेश**

27 जनवरी, 2025 ई0

पत्रांक:-367/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2025-श्री गिरीश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री जीवन चन्द्र शर्मा निवासी-सरना कनखा सरना पदमपुरी जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड का दिनांक 18.12.2024 को वाहन संख्या यू0के0 04 सी0बी0 8196 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। थानाध्यक्ष थाना-कांठगोदाम, जनपद-नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK-0120200005409 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK-0120200005409 को निरस्त करता हूँ।

**कार्यालयादेश**

27 जनवरी, 2025 ई0

पत्रांक:-368/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2025-श्री सुरेश चन्द्र पुत्र श्री खुशाल राम निवासी-नगीना कॉलोनी लालकुआ जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड का दिनांक 22.12.2024 को वाहन संख्या यू0के0 04 सी0सी0 7373 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। थानाध्यक्ष थाना-कांठगोदाम, जनपद-नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK-0420030062089 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK-0420030062089 को निरस्त करता हूँ।

**कार्यालयादेश**

27 जनवरी, 2025 ई0

पत्रांक:-369/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2025-श्री दीपक जोशी पुत्र श्री जी0के0 जोशी निवासी-ई0डब्लू0एस0 770 बी आवास विकास, रुद्रपुर किच्छा जनपद ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड का दिनांक 29.12.2024 को वाहन संख्या यू0के0 04 ए0पी0 2298 (चालान संख्या-UK247596241229183144) का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी द्वारा चालान किया गया है सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK-0620120059655 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK-0620120059655 को निरस्त करता हूँ।



कार्यालयादेश

27 जनवरी, 2025 ई0

पत्रांक:-370/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2025-श्री पूरन सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह निवासी-सिमतौली, पो0 बवाला थाना झिरौली जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड का दिनांक 28.11.2024 को वाहन संख्या यू0के0 02 टी0ए0 2434 (चालान संख्या-UK158161241128020330) का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। थानाध्यक्ष थाना-मुखानी, जनपद-नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK-0220110001682 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK-0220110001682 को निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

27 जनवरी, 2025 ई0

पत्रांक:-371/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2025-श्री सूरज सिंह पुत्र श्री हीरा सिंह निवासी-बमेठा बंगर हल्द्वौड़ हल्द्वानी जिला नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 21.12.2024 को वाहन संख्या यू0के0 04 सी0बी0 3479 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। क्षेत्राधिकारी लालकुआं जनपद-नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK-0420010069660 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK-0420010069660 को निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

27 जनवरी, 2025 ई0

पत्रांक:-372/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2025-श्री योगेश गर्बयाल पुत्र श्री डी0एस0 गर्बयाल निवासी-कुमाँऊ झाइविंग ट्रेनिंग स्कूल गोरापड़ाव हल्द्वानी जिला नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 15.11.2024 को वाहन संख्या यू0के0 04 एच0 2274 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। पुलिस सब इस्पेक्टर बेलंदपुर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन बैंगलुरु सिटी द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK-0420090023746 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK-0420090023746 को निरस्त करता हूँ।



कार्यालयादेश

27 जनवरी, 2025 ई0

पत्रांक:-373/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2025-श्री पुष्कर सिंह पुत्र श्री मदन सिंह निवासी-धरमौली, पो0 राम मन्दिर थाना बेरीनाग जिला पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड का दिनांक 24.12.2024 को वाहन संख्या यू0के0 04 सी0बी0 1386 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। थानाध्यक्ष थाना-सोमेश्वर, जनपद-अल्मोड़ा द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK-0520110001820 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK-0520110001820 को निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

27 जनवरी, 2025 ई0

पत्रांक:-374/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2025-श्री गोपाल राम पुत्र श्री नन्दन राम निवासी-म0सं0 73 सौद पो0 सौद मल्लीताल जिला नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 23.11.2024 को वाहन संख्या ए0पी0 39 एफ0ई0 7496 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। पुलिस इस्पेक्टर एच एस आर लेआउट पुलिस स्टेशन बैंगलुरु द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK-0420150157365 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK-0420150157365 को निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

27 जनवरी, 2025 ई0

पत्रांक:-375/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2025-श्री केशर सिंह बोरा पुत्र श्री शेर सिंह बोरा निवासी-म0सं0 40 सूखाताल वार्ड-10 मल्लीताल जिला-नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 15.02.2024 को वाहन संख्या यू0के0 04 सीसी 1339 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। थानाध्यक्ष थाना-काठगोदाम, जनपद-नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK-0420110047648 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK-0420110047648 को निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

27 जनवरी, 2025 ई0

पत्रांक:-376/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2025-श्री देवांग जोशी पुत्र श्री जगदीश जोशी निवासी-म0सं0 239 बिठोरिया नं 1 हल्द्वानी जिला नैनीताल उत्तराखण्ड का दिनांक 13.12.2024 को वाहन संख्या के0ए0 02 एम0जे0 7213 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। पुलिस सब इस्पेक्टर पुलकेशी नगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन बैंगलुरु द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UK-0420110068154 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UK-0420110068154 को निरस्त करता हूँ।

विपिन कुमार सिंह,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,  
हल्द्वानी।

कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

टनकपुर (चम्पावत)

कार्यालयादेश

08 जनवरी, 2025 ई0

पत्रांक-041/निलम्बन/2025-वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट/ओवरलॉडिंग/ओवर स्पीड/मोबाइल का प्रयोग/शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरहित (माह जनवरी, 25) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है :-

क्र. स.	लाइसेन्स धारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	निलम्बन अवधि
1	श्री नाजिम हुसैन पुत्र श्री जानिब बाबू, भजनपुर, पोस्ट चन्दनी, जनपद चम्पावत।	UK-0320110007930	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी ले जाना।	दिनांक 08.01.2025 से दिनांक 07.02.2025 तक
2.	श्री सूरज तिवारी पुत्र श्री गिरीश चन्द्र तिवारी, तयार कुरा, जनपद चम्पावत।	UK-0320210001636	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना	दिनांक 08.01.2025 से दिनांक 07.04.2025 तक
3	श्री दीपक भट्ट पुत्र श्री नारायण भट्ट, जूप, पटवा, जनपद चम्पावत।	UK-0320230006624	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
4	श्री राजेन्द्र प्रकाश पुत्र श्री केशव राम, गरसाड़ी, पाटी चम्पावत।	UK-0320140018409	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना	उपरोक्तानुसार

5	श्री सतोष सिंह पुत्र श्री विक्रम सिंह, चिंगारी, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520140018480	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना	उपरोक्तानुसार
6	श्री सचिन सिंह महर पुत्र श्री जगत सिंह महर, खुनाबोरा, जनपद चम्पावत।	UK-0320190002178	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना	उपरोक्तानुसार
7	श्री रोशन महर पुत्र श्री नरेश सिंह महर, रायकोट महर, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK-0320230006337	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	आदेशों की अवज्ञा करना व जानकारी देने से इन्कार करना।	दिनांक 08.01.2025 से दिनांक 07.02.2025 तक
8.	श्री अमय कुमार पुत्र श्री शंकर राम, मुडियानी, धुरा, जनपद चम्पावत।	UK-0320240004389	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	दिनांक 08.01.2025 से दिनांक 07.04.2025 तक
9.	श्री हरी सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह, सल्ली, पोस्ट धौन, जनपद चम्पावत।	UK-0320240002922	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
10.	श्री राकेश सिंह बोहरा पुत्र श्री सुन्दर सिंह बोहरा, दुबर कामलेख, धुनाघाट, पाटी, जनपद चम्पावत।	UK-0320240007191	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
11.	श्री देव सिंह पुत्र श्री बच्ची सिंह, चौकी फुंगर, जनपद चम्पावत।	UK-0320130014541	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना	उपरोक्तानुसार
12.	श्री गोपाल दत्त भट्ट पुत्र श्री टीकाराम भट्ट, स्वाला, जनपद चम्पावत।	UK-0320230005374	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
13.	श्री इजाज अहमद पुत्र श्री नजीर अहमद, जाम स्वांत, बहेड़ी, बरेली, उ.प्र.	UP-2520100000322	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	भार वाहन में सवारी बैठाकर वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
14.	श्री मोहन सिंह बोहरा पुत्र श्री गोपाल सिंह बोहरा, ग्राम साल रीठा साहिब, जनपद चम्पावत।	UK-0320130014015	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	शराब पीकर वाहन का संचालन करना।	दिनांक 08.01.2025 से दिनांक 07.07.2025 तक
15.	श्री रविन्द्र सिंह पुजारी पुत्र श्री मोहन सिंह पुजारी, चौकी फुंगर, जनपद चम्पावत।	UK-0320240000280	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	दिनांक 08.01.2025 से दिनांक 07.04.2025 तक
16.	श्री अभिषेक नेगी पुत्र श्री कुन्दन सिंह नेगी, पुनेटी, तिलोन, जनपद चम्पावत।	UK-0320240001644	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
17.	श्री मोहित खर्कवाल पुत्र श्री रमेश चन्द्र, खर्कवाल, खर्क, जनपद चम्पावत।	UK-0120230000887	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
18.	श्री सूरज सिंह पुत्र श्री माधो सिंह, धौन सल्ली, जनपद चम्पावत।	UK-0320220005855	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
19.	श्री बबलू कुमार पुत्र श्री केशव लाल, नरसिंह डांडा, धामीसौन, जनपद चम्पावत।	UK-0320170037908	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना	उपरोक्तानुसार
20.	मो. फारुख पुत्र अलाउद्दीन, उमरुखुर्द, इस्लामनगर, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UP-2620000021073	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	शराब पीकर वाहन का संचालन करना।	दिनांक 08.01.2025 से दिनांक 07.07.2025 तक
21.	जय प्रकाश कोहली पुत्र श्री हरि राम, भूरिया थारू, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0320130013479	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	दिनांक 08.01.2025 से दिनांक 07.04.2025 तक

22	श्री रोहित सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, पचपकरिया, बनबसा, जनपद चम्पावत।	UK-0320230003807	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
23	श्री गौरव कुमार पुत्र श्री पुष्कर राम, नरसिंह डांडा, धामीसोन, तहसील चम्पावत, जनपद चम्पावत।	UK-0320240007856	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
24	श्री दिनेश चन्द्र उप्रेती पुत्र श्री चन्द्रशेखर उप्रेती, पुनेठी, जनपद चम्पावत।	UK-0320190000050	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
25	श्री ललित मोहन गहतोड़ी पुत्र श्री नवीन चन्द्र गहतोड़ी, कानाकोट, जनपद चम्पावत।	UK-0320210002153	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
26	श्री दीपक बहादूर साकी पुत्र श्री राजू बहादूर साकी, वार्ड नं 01, साकी टोला, जनपद चम्पावत।	UK-0320190000337	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
27	श्री निशान्त बहादूर साकी पुत्र श्री राजेश साकी, साकी टोला, वार्ड लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK-0320210000768	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
28	श्री आनन्द बल्लभ कापड़ी पुत्र श्री लक्ष्मी दत्त कापड़ी, सिरदा, नैनीपातल, पिथौरागढ़।	UK-0420020063186	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
29.	श्री मनोहर सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह, बुगांछीना, पिथौरागढ़।	UK-0520218038876	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
30.	श्री अमित सिंह महर पुत्र श्री मदन सिंह, सिप्टी, जनपद चम्पावत।	UK-0320190002420	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
31.	श्री जगदीश सिंह किरोला पुत्र श्री गुसाई सिंह किरोला, तिलवाड़ा, जनपद चम्पावत।	UK-0320110006304	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
32.	श्री पंकज सिंह मेहता पुत्र श्री कौशल सिंह मेहता, कानीकोट, जनपद चम्पावत।	UK-0420220006772	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना।	उपरोक्तानुसार
33.	श्री खजान सिंह चौहान पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह चौहान, 06 बसौर, अलगार, डीडीहाट, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520230001773	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी ले जाना।	दिनांक 08.01.2025 से दिनांक 07.02.2025 तक
34.	श्री त्रिलोमणि पुत्र श्री मागदेव थवाल, बडौली, चम्पावत।	UK-0320230003358	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	भार वाहन में सवारी बैठाकर वाहन का संचालन करना।	दिनांक 08.01.2025 से दिनांक 07.04.2025 तक
35.	श्री पंकज कुमार पुत्र श्री बसन्त राम, दुबगारी, नधान, जनपद चम्पावत।	UK-0320220001094	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	भार वाहन में सवारी बैठाकर वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
36.	श्री कमल जोशी पुत्र श्री नारायण दत्त जोशी, पम्दा, बिसराड़ी, बोराकोट, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK-0320130013520	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
37.	श्री सुभाष कुमार पुत्र श्री चिन्ता राम, खेतड़ा, जनपद चम्पावत।	UK-0420010047145	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
38.	श्री सुमित शर्मा पुत्र श्री मथुरा प्रसाद, शाहदापुरा पावर हाऊस, रुद्रपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0620070015559	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना।	उपरोक्तानुसार
39.	श्री सुनील सिंह पुत्र श्री बालम सिंह झालाखुर्द, जनपद चम्पावत।	UK-0320240008339	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार

40.	मो. कासिम पुत्र रईस अहमद, 07 अमाऊ, खटीमा जनपद ऊधम सिंह नगर।	UP-2620220016014	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	खतरनाक तरीके से वाहन चलाना।	उपरोक्तानुसार
41.	श्री अकरम पुत्र श्री सलीम, वार्ड -04, नई बरती, मीना बाजार, चंदनी, बनबसा, जनपद चम्पावत।	UK-0320240000285	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	खतरनाक तरीके से वाहन चलाना।	उपरोक्तानुसार
42.	श्री दीपक चंद पुत्र श्री खीम चंद, गदार, रोरीपाली, पिथौरागढ़	UK-0420000104119	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी ले जाना	दिनांक 08.01.2025 से दिनांक 07.02.2025 तक
43.	श्री हेमराज सिंह पुत्र श्री मोती सिंह, खर्ककार्की, पोस्ट एवं तहसील चम्पावत, जनपद चम्पावत।	UK-0320150027416	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना।	दिनांक 08.01.2025 से दिनांक 07.04.2025 तक
44.	श्री अनिल कुमार पुत्र श्री बिष्णु दत्त, किमतोली, डीडीहाट, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0420030043949	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना।	दिनांक 08.01.2025 से दिनांक 07.02.2025 तक
45.	श्री त्रिलोक सिंह पुत्र श्री राम सिंह, लिडू, चौमेल, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK-0320210001901	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	दिनांक 08.01.2025 से दिनांक 07.04.2025 तक
46.	श्री गिरधर सिंह पुत्र श्री विक्रम सिंह, धौन, जनपद चम्पावत।	UK-0320140021083	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
47.	श्री त्रिलोचन भट्ट पुत्र श्री लोकमणि भट्ट, मझेड़ा, जनपद चम्पावत।	UK-0320240000101	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
48.	श्री खीमानन्द भट्ट पुत्र श्री हेत राम भट्ट, चम्पावत, जनपद चम्पावत।	UK-0320190001090	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
49.	श्री जयवीर सिंह पुत्र श्री नौवत सिंह, वार्ड नं. 01, सैफियान, फतेउल्लाह गंज, ठाकुर द्वार मुरादाबाद, उ.प्र.।	UP-2120210026739	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का खतरनाक संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
50.	श्री प्रकाश कुमार पुत्र प्रताप राम, कधार डीडीहाट, पिथौरागढ़।	UK-0520220004425	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी ले जाना।	उपरोक्तानुसार
51.	श्री नासीर अहमद पुत्र श्री शकील अहमद, मौलवीतोला, बदायूँ, उ.प्र.।	UP-2420160001057	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
52.	श्री जाहिद हुसैन पुत्र किफायत हुसैन, बलुवाकोट, धाराचूला, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520240002567	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
53.	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री मोहन राम, कोलीढेक, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK-0320200000351	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
54.	श्री दिनेश लाल वर्मा पुत्र श्री स्व. श्री प्रेम लाल वर्मा, एल 01/80 विनीत खण्ड, गोमती नगर लखनऊ, उ.प्र.	UP-3220019007331	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
55.	श्री सचिन कुंवर पुत्र श्री रघुवर सिंह कुंवर, कनलगाँव, पोस्ट एवं तहसील चम्पावत, जनपद चम्पावत।	UK-0320160033671	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
56.	श्री पंकज कुमार पुत्र श्री प्रेम राम, लीमा तोरा, डीडीहाट, पिथौरागढ़।	UK-0520240001982	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार



57.	श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री जगन सिंह, लोक निर्माण विभाग परिसर, बट्टीपुरा, हल्द्वानी	UK-0420140133110	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
58.	श्री अभिषेक गहतोड़ी पुत्र श्री गंगा दत्त गहतोड़ी, म.न. 61, पउ, गलचौड़ा, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0320170034605	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
59.	श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री जमन सिंह, तल्ली मादली, पोस्ट एवं तहसील चम्पावत, जनपद चम्पावत।	UK-0320160028631	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
60.	श्री रोहित जोशी पुत्र श्री भैरव दत्त जोशी, कफलांग, दुधपोखरा, जनपद चम्पावत।	UK-0320190000686	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
61.	श्री कुन्दन सिंह पुत्र श्री केदार सिंह, सिरतोला, जनपद पिथौरागढ़	UK-0520200000042	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
62.	श्री अमरेन्द्र सिंह पुत्र श्री अशोक सिंह भाटकोट, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520130013185	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
63.	श्री पंकज कुमार जोशी पुत्र श्री पुष्कर दत्त जोशी, मालन, चर्मा, हचिला, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520090037296	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
64.	श्री हरि किशोर पुत्र श्री छोटे लाल, सिंगाखेरा, माजरा, अममदनगर, तहसील सदर, जनपद रामपुर, उ.प्र.	UP-2220200004741	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
65.	प्रांजल गहतोड़ी पुत्र प्रकाश चन्द्र गड़कोटी, जाखनी, बिण, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520180038429	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
66.	श्री गौतम सिंह मेहता पुत्र श्री नारायण सिंह, चांदमारी, पोस्ट एवं तहसील लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK-0320070038961	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन का तीव्र गति में संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
67.	श्री मनोज सिंह राठौर पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश, म.न. 33, लाल ईमली पड़ाव, वार्ड नं. 07, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320210003753	प्रवर्तन दल टनकपुर	भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	उपरोक्तानुसार
68.	श्री बिपिन चन्द्र कापड़ी पुत्र श्री लक्ष्मी दत्त, ग्राम चोरी भाट, तहसील लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK-0320120013228	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
69.	श्री विनोद कुमार पुत्र श्री नाथू लाल, इन्द्रानगर, पचपकरिया, बनबसा, जनपद चम्पावत।	UK-0319950003060	प्रवर्तन दल टनकपुर	भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	उपरोक्तानुसार
70.	श्री मनोहर सिंह महर पुत्र श्री प्रताप सिंह, म.न. 177, ककरालीगेट, पोस्ट एवं तहसील टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320150027766	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
71.	श्री उमेश चन्द्र भट्ट पुत्र श्री उर्वा दत्त भट्ट, BEG AND CENTER, रुड़की, जनपद हरिद्वार।	UK-0820051916265	प्रवर्तन दल टनकपुर	भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	उपरोक्तानुसार
72.	श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री गोपी चन्द, ग्राम बिचई, पो. टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320060001628	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
73.	श्री जगदीश पाण्डे पुत्र श्री मथुरा दत्त पाण्डे, 40 बीएन, पी.ए.सी., हरिद्वार।	UK-0820140145269	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
74.	श्री मुख्तियार खान पुत्र श्री जलाउद्दीन, म. न. 254, न्यू टाउन, पो. टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0319930017087	प्रवर्तन दल टनकपुर	सवारी वान में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना।	दिनांक 08.01.2025 से दिनांक 07.02.2025 तक

**कार्यालयादेश**

20 जनवरी, 2025 ई0

**पत्रांक-0081/निलम्बन/2025**—वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट/ओवरलोडिंग/ओवर स्पीड/मोबाइल का प्रयोग/शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरहित (माह जनवरी, 25) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है :-

क्र. स.	लाइसेन्स धारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	निलम्बन अवधि
1	श्री गोविन्द बल्लभ पुनेठा पुत्र श्री केशव दत्त पुनेठा, म.न. 163, ग्राम भजनपुर, पोस्ट बनबसा, जनपद चम्पावत।	UK-0320130018128	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	दिनांक 20.01.2025 से दिनांक 19.04.2025 तक
2	कु. प्रिया चन्द पुत्री श्री भरत चन्द, चुनाभट्टा, बनबसा, जनपद चम्पावत।	UK-0320170034850	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
3	श्री अनस पुत्र श्री हनीफ, यार खान, पोस्ट न्युरिया, जनपद पीलीभीत, उ.प्र.	UP-2620170004013	प्रवर्तन दल टनकपुर	दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना।	उपरोक्तानुसार
4	श्री संतोष गुप्ता पुत्र श्री रामेश्वर दयाल, म. न. 80, ग्राम भजनपुर, पोस्ट चन्दनी, तहसील टनकपुर, जनपद चम्पावत	UK-0320160029863	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार
5	श्री निकितेश खर्कवाल पुत्र श्री नरेश कुमार खर्कवाल, वार्ड नं. 08, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320150024948	प्रवर्तन दल टनकपुर	वाहन संचालन के समय हेलमेट का प्रयोग न करना।	उपरोक्तानुसार

**कार्यालयादेश**

11 मार्च, 2025 ई0

**पत्रांक-0336/निलम्बन/2025**—वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट/ओवरलोडिंग/ओवर स्पीड/मोबाइल का प्रयोग/शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरहित (माह मार्च, 25) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है :-

क्र. स.	लाइसेन्स धारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	निलम्बन अवधि
1	श्री आकाश कुमार पुत्र श्री शिव कुमार, विपुल, सतशिलिंग, पिथौरागढ़।	UK-0520210003921	पुलिस, चम्पावत।	भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	दिनांक 11.03.2025 से दिनांक 10.06.2025 तक
2	श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह, सिगड़ाघाट, बाराकोट, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK-0419940060325	थानाध्यक्ष, दन्या, अल्मोड़ा।	भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	उपरोक्तानुसार
3	श्री हयात सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, नगला तराई, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0320210000276	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
4	श्रीमती जानकी उपाध्याय पत्नी श्री तरुण उपाध्याय, विष्णुपुरी कालोनी, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320240000789	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार

5.	श्री सचिन कुमार डोरा पुत्र श्री राम नाथ, हाथीखान वार्ड नं. 07, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0320110007305	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
6.	श्री दीपक कुमार पुत्र श्री मेश चन्द्र, मन. 98, पंचपखरिया, पो. चन्दनी, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320170038837	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
7.	श्रीमती अंजना पाण्डे पत्नी श्री मुकेश चन्द्र पाण्डे, नायकगोट, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320220002462	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
8.	श्री महेश चन्द्र जोशी पुत्र श्री राम दत्त जोशी, नियर सेन्ट फ्रान्सेस, ककरालीगेट, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320210000485	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार

### कार्यालयादेश

24 मार्च, 2025 ई0

**पत्रांक-0405/निलम्बन/2025**—वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट/ओवरलोडिंग/ओवर स्पीड/मोबाइल का प्रयोग/शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरहित (माह मार्च, 25) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है :-

क्र. स.	लाइसेंस धारक का नाम व पता	लाइसेंस संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	निलम्बन अवधि
1	श्री विजय पाल सिंह पुत्र श्री देवी दास, बाकुली, बहेड़ी, उ.प्र.	UP-2519790002011	प्रवर्तन दल, टनकपुर	भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	दिनांक 24.03.2025 से दिनांक 23.06.2025 तक
2.	श्री सुनील भट्ट पुत्र श्री रमेश दत्त भट्ट, इन्द्रानगर, रानीबाग थाना काठगोदाम, जनपद नैनीताल।	UK-0420020058286	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	शराब पीकर वाहन का संचालन करना।	दिनांक 24.03.2025 से दिनांक 23.09.2025 तक
3	श्री प्रकाश सिंह पुत्र श्री उदय सिंह, मल्ला कफल्टा, मंच, जिला चम्पावत।	UK-0320240002188	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	दिनांक 24.03.2025 से दिनांक 23.06.2025 तक
4	श्री चन्द्र बल्लभ पुत्र श्री दीनदयाल भट्ट, बिचई, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320090009889	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
5.	श्री अमर सिंह पुत्र श्री उदय सिंह, किमतोली मल्ला खेतड़ा, जनपद चम्पावत।	UK-0320170035863	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
6.	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री जगजीवन राम, धामीसौन, नरसिंह डांडा, जनपद चम्पावत।	UK-0320220000842	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
7.	श्री अरुण पुत्र श्री महेन्द्र निवादा सन्डल कलान, सोनीपत हरियाणा।	HR-1020250000099	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हल्मेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
8.	श्री यशोदा सिंह पुत्र केशर सिंह मेहरा, अधौड़ा, जनपद नैनीताल।	UK-0420180000579	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	शराब पीकर वाहन का संचालन करना।	दिनांक 24.03.2025 से दिनांक 23.09.2025 तक
9.	श्री पंकज सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह, तड़मिया, पो. सेला, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520160024771	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	यात्री वाहन में क्षमता से अधिक सवारी ले जाना।	दिनांक 24.03.2025 से दिनांक 23.04.2025 तक
10.	श्री राहुल सिंह पुत्र श्री मनोज सिंह, भतेड़ी, जिला पिथौरागढ़।	UK-0520190048091	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	दिनांक 24.03.2025 से दिनांक 23.06.2025 तक उपरोक्तानुसार



11.	श्री अभिषेक कुमार शर्मा पुत्र श्री रामाशंकर, राजीवनगर, भूड महोलिया, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0620190010793	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना।	उपरोक्तानुसार
12.	श्री राहुल सिंह बोहरा पुत्र श्री रघुवर सिंह बोहरा, गोसनी, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK-0120210005122	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
13.	श्री अजय सिंह बोहरा पुत्र श्री पुष्कर सिंह बोहरा, मल्ली चौकी, पो.ओ. फुंगर, जनपद चम्पावत।	UK-0320190000994	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
14.	श्री अशोक चन्द्र पुत्र श्री भजन चन्द्र, चामी, बेरीनाग, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520170029572	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
15.	श्री अभय वर्मा पुत्र श्री हरीश लाल वर्मा, थाड़ादुंगा, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK-0320140022064	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना।	उपरोक्तानुसार
16.	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह बगारहबगड़, पाखू, बेरीनाग, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0420040140891	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
17.	श्री हरीश सिंह पुत्र रुद्र सिंह, आमबाग, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320060006496	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	शराब पीकर वाहन का संचालन करना।	दिनांक 24.03.2025 से दिनांक 23.09.2025 तक
18.	श्री नन्दाबल्लभ जोशी पुत्र श्री गिरधारी दत्त, दुधपोखरा, कफलांग, जनपद चम्पावत।	UK-0320170039269	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	दिनांक 24.03.2025 से दिनांक 23.06.2025 तक
19.	श्री यशपाल सिंह विष्ट पुत्र श्री महेश सिंह, गोली, जनपद चम्पावत।	UK-0320210002265	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना।	उपरोक्तानुसार
20.	श्री भुवन चन्द्र पंत पुत्र श्री गोपाल दत्त, मितारी, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520190045866	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
21.	श्री प्रबल प्रताप पुत्र श्री महेश चन्द्र ए-92, डिफेन्स कालोनी नियर गीताज्ञान भर्ती स्कूल आगरा कैंट, आगरा, उ.प्र.	80/0020276/ UP-8020100020276	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
22.	श्री दुर्गधन सिंह पुत्र श्री आन सिंह, ग्राम मडुवा रौसाल, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK-0319990014577	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	यात्री वाहन में क्षमता से अधिक सवारी ले जाना।	दिनांक 24.03.2025 से दिनांक 23.04.2025 तक
23.	श्री संजय वर्मा पुत्र श्री राजू वर्मा, म.न. 14, वार्ड 11, खरकोट वार्ड 15, महरखास, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520130013142	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।	दिनांक 24.03.2025 से दिनांक 23.06.2025 तक उपरोक्तानुसार
24.	श्री महेश चन्द्र पुत्र श्री गिरीश चन्द्र म.न. 02, ग्राम एवं पोस्ट रौसाल, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK-0320030024905	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	यात्री वाहन में क्षमता से अधिक सवारी ले जाना।	दिनांक 24.03.2025 से दिनांक 23.04.2025 तक
25.	श्री खीलानन्द विष्ट पुत्र श्री रुद्रमणी, कफलेख, जनपद चम्पावत।	UK-0319930007438	प्रवर्तन दल, टनकपुर	शराब पीकर वाहन का संचालन करना।	दिनांक 24.03.2025 से दिनांक 23.09.2025 तक
26.	श्री मान सिंह पुत्र श्री नर सिंह, ग्राम रौसाल मडुवा, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK-0320020024887	प्रवर्तन दल, टनकपुर	वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	दिनांक 24.03.2025 से दिनांक 23.06.2025 तक
27.	श्री मुकेश प्रसाद पुत्र श्री हरीश राम, ग्राम एवं पोस्ट सुखीढाग, तहसील टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320160030757	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
28.	मो. सलीम पुत्र श्री लल्लूबक्श, म.न. 220, रेलवे वार्ड नं. 10, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320200001835	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
29.	श्री अभिनव मौर्या पुत्र श्री देवराज मौर्या, ग्राम एवं पोस्ट लालपुर, किच्छा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0620190001464	प्रवर्तन दल, टनकपुर	वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	उपरोक्तानुसार

30.	श्री रमेश लाल पुत्र श्री जय राम, चन्दनी, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320160030612	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
31.	श्री शुभम महर पुत्र श्री दशरथ सिंह, गेंडाखाली, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320230003259	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
32.	श्री कमल सिंह सिरौला पुत्र श्री नन्दन सिंह सिरौला, ग्राम बनजली फार्म, श्रीपुर बिचवा, पोस्ट बिगराबाग, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0320140022124	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार

### कार्यालयादेश

21 अप्रैल, 2025 ई0

पत्रांक-0474/निलम्बन/2025-वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट/ओवरलोडिंग/ओवर स्पीड/मोबाइल का प्रयोग/शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरहित (माह अप्रैल, 25) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है :-

क्र. स.	लाइसेन्स धारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	निलम्बन अवधि
1	श्री दीपक सिंह बिष्ट पुत्र श्री विजय सिंह बिष्ट, स्ववाहन आर्मर्ड रेजीमेन्ट, C/O 56 APO, हिसार, हरियाणा।	HR-2020180011528	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	दिनांक 21.04.2025 से दिनांक 20.07.2025 तक
2	श्री बलवन्त पाण्डे पुत्र श्री कृष्णानन्द पाण्डे, ग्राम बिचई, मनिहारगोठ, टनकपुर, जनपद चम्पावत	UK-0320100002553	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
3	श्री अनिल सिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह, नायकखेड़ा, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320130016297	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
4	श्री पुरन लाल पुत्र जोधे लाल, ग्राम मनिहारगोठ, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320180002619	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
5	श्री केदार सिंह पुत्र श्री जोध सिंह, सूवागोठ, उचौली, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK03/9340/TNK/2009 (मैनयुअल लाइसेन्स)	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
6	श्री यशवीर पुत्र श्री राजा राम, ग्राम मिल्लाहपुर, कुरह, फतेहगढ़, सम्भल, उ.प्र.	UP-3820140009654	प्रवर्तन दल, टनकपुर	भार वाहन में सवारी बैठाना।	उपरोक्तानुसार
7	श्री वीरपाल पुत्र श्री दयाराम, जगीपुर, जीतपुर, बड़खेड़ा, कलान, बिसलपुर, पीलीभीत, उ.प्र.।	UP-2620190006653	प्रवर्तन दल, टनकपुर	यात्री वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना।	दिनांक 21.04.2025 से दिनांक 20.05.2025 तक
8	श्री सरफराज अहमद पुत्र श्री अजीज अंसारी, रिषेश्वर वार्ड, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK-0320160031229	क्षेत्राधिकारी खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर	190(2) वाहन के बिना वैध वायु प्रदूषण के वाहन का संचालन करना।	दिनांक 21.04.2025 से दिनांक 20.07.2025 तक
9	मो.यासीन पुत्र श्री उसमान, वर्मा लाईन वार्ड नं. 03, शारदा रेन्ज, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320180001173	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	यात्री वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना।	दिनांक 21.04.2025 से दिनांक 20.05.2025 तक
10	श्री पंकज चौड़ाकोटी पुत्र श्री कैलाश चन्द्र चौड़ाकोटी, धुरा, सूखीढांग, जनपद चम्पावत।	UK-0320220003422	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	दिनांक 21.04.2025 से दिनांक 20.07.2025 तक
11	श्री सिद्धार्थ पोखरिया पुत्र श्री बलवन्त सिंह, खेतल संडा मुस्ताजर, नौगवानाथ, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0320140019427	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार

12.	श्री कैलाश सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, म.न. 32 सी, मोहम्मदपुर गाँव न्यू दिल्ली।	DL-0420020175102	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
13.	श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द्र शर्मा, म.न. 319, गली नं. 12, अशोक वाटिका, एस बाद, गाजियाबाद, उ.प्र.।	UP-1420170019497	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
14.	श्री पंकज सिंह चौपाल पुत्र श्री जगत सिंह चौपाल, बिठौरिया, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल	UK-0420120088607	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
15.	श्री देवेन्द्र सिंह नेगी पुत्र श्री एच.एस. नेगी, डी-17, गली नं.-03 इस्ट विनोद नगर कल्याणपुरी, ईस्ट दिल्ली	DL-0720030050321	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
16.	श्री मनोज ठाकुर पुत्र श्री प्रताप सिंह, फ्लेट नं. F002, माया गार्डन, फेस-I, वी आई पी रोड जिराकपुर, पंजाब।	PB-7020220003500	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
17.	श्री दिनेश कुमार बंसल पुत्र श्री मुन्ना लाल बंसल, म.नं. 66, सिनेमा लाइन, पिथौरागढ़।	UK-0520110003040	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
18.	श्री महेश सिंह महर पुत्र श्री देव सिंह महर, कफल्टा तल्ला, चम्पावत, जनपद चम्पावत।	UK-0320120012815	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
19.	श्री अजीत कुमार गंगवार पुत्र श्री बाबू राम गंगवार, विष्णु पुरी कालोनी, मोहनपुर, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320240003948	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	नशे में वाहन का संचालन करना।	दिनांक 21.04.2025 से दिनांक 20.10.2025 तक
20.	श्री दिनेश सिंह डेक पुत्र श्री भवान सिंह, कोलीडेक, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK-0320230004840	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	नशे में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
21.	श्री होशियार गिरी पुत्र श्री भगवान गिरी, कालीपोखरी, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520200001123	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	दिनांक 21.04.2025 से दिनांक 20.07.2025 तक
22.	श्री तारा दत्त पचोली पुत्र श्री जशोधर पचोली, किमवाड़ी, झुडेली, पाटी, जनपद चम्पावत।	UK-0320100001790	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
23.	श्री सौरभ जोशी पुत्र श्री नवीन चन्द्र, चौदनी चौक, भगीरथ, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।	UK-0420110066290	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
24.	श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री चंचल सिंह, बस्टिया, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320070020731	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
25.	श्री सुन्दर सिंह पुत्र श्री सोबन सिंह, कर्णकरायत, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK-0320190000865	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
26.	श्री हरीश सिंह पाल पुत्र श्री जय सिंह, बीग बजेड़, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0420050074009	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
27.	श्री मनोज सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, डोयडा कननालीछीना, जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520160028658	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
28.	श्री सूरज सिंह पुजारी पुत्र श्री जगदीश सिंह पुजारी, खर्ककार्की, जनपद चम्पावत।	UK-0320210002801	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
29.	श्री संजय सिंह बोहरा पुत्र श्री विक्रम सिंह बोहरा, भुरमुनी सिनतोलीख जनपद पिथौरागढ़।	UK-0520160025090	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
30.	श्री प्रेम बल्लभ पुत्र श्री भवानी दत्त, अमकरिया, सिप्टी, जनपद चम्पावत।	UK-0320080008087	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
31.	श्री मनोज पुजारी पुत्र श्री रंजीत सिंह, कलीगाँव, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK-0320170037025	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार

32.	श्री मुकेश चन्द्र पाण्डेय पुत्र श्री दिनेश पाण्डेय, सल्टा, पोस्ट बगौटी, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।	UK-0320170037894	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
33.	सुशील कुमार पुत्र श्री बीना देवी, निवासी नादेही, जसपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-1820230000415	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
34.	श्री रंजनीश कुमार पुत्र श्री पीतम राम, मरौड़ी, न्यूरिया, जनपद पीलीभीत, उ.प्र.।	UP-2620180007084	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
35.	श्री प्रेम बल्लभ भट्ट पुत्र श्री गिरीश चन्द्र भट्ट, चन्दनी, बनबसा, जनपद चम्पावत।	UK-0320110006533	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	परमिट शर्तों का उल्लंघन	दिनांक 21.04.2025 से दिनांक 20.05.2025 तक
36.	मो. इमरान पुत्र श्री मो. उमर, टी.पी.नगर, काशीराम कालोनी, सुनगढ़ी, पीलीभीत, उ. प्र.।	UP-2620130010044	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	खतरनाक संचालन	दिनांक 21.04.2025 से दिनांक 20.07.2025 तक
37.	श्री ललित महर पुत्र श्री दीवान सिंह महर, गैड़ाखाली नं. 04, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK-0320120012960	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
38.	श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री इन्द्रजीत सिंह, न्यू पारस नगर, बोह रोड, अम्बाला कैन्ट, हरियाणा।	HR-8520170004891	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
39.	श्री जतिन यादव पुत्र श्री सतीश यादव, गागलहेड़ी पीछे शिव मन्दिर, देहरादून रोड, सहारनपुर, उ.प्र.।	UP-1120180011755	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
40.	श्री भीम दत्त भट्ट पुत्र श्री के.डी. भट्ट, बांखू, चम्पावत, जनपद चम्पावत।	UP-8020030002617	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
41.	श्री बालकृष्ण पुत्र श्री लक्ष्मीदत्त, चौलापानी, सूखीढांग, जनपद चम्पावत।	UK-0320130014431	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
42.	श्री रोहित सिंह खाती पुत्र श्री मदन सिंह खाती, तल्ली मादली पो. एवं तहसील चम्पावत जनपद चम्पावत।	UK-0320150027246	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
43.	श्री भीम नरजित दमाई पुत्र श्री नरजित दमाई, UTTAN VIVIDH LAKSHYEE SHIKSHAN KESHAV SHRISHTI UTTAN RD RAM RATNA VIDHYA MANDIR BHAYANDAR WEST THANE, MH	MH-0220240002986	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
44.	श्री प्रांशु कुमार वर्मा पुत्र श्री जंगली प्रसाद, 289, मुन्डा, थाना काकू, लखनऊ, उ.प्र.।	UP-3220150025956	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।	यात्री वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना।	दिनांक 21.04.2025 से दिनांक 20.05.2025 तक

सुरेन्द्र कुमार,

लाइसेंसिंग अथॉरिटी,

टनकपुर चम्पावत।



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 जून, 2025 ई0 (ज्येष्ठ 17, 1947 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

### सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं0 849149803947 में त्रुटिवश उसका नाम दिव्या दुबे (DIVYA DUBEY) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम DITYA DUBEY है। जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र सं0 B-2024: 9-90347-006093 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को DITYA DUBEY D/O JAYSHANKAR DUBEY के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

JAYSHANKAR DUBEY  
निवासी लेन नं0 11 कृष्णानगर  
रुड़की जिला— हरिद्वार उत्तराखण्ड।

### सूचना

मेरे आधार कार्ड नं0 676247100674 में त्रुटिवश मेरा नाम विवेक कुमार बिष्ट गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम विवेक कुमार है। जोकि मेरे डी0एल0 व अन्य दस्तावेजों में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे विवेक कुमार पुत्र श्री नारायण सिंह बिष्ट के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

विवेक कुमार पुत्र श्री नारायण सिंह बिष्ट  
निवासी—अस्थल रायपुर देहरादून  
उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आर्मी के सेवा अभिलेखों में त्रुटिवश में नाम Ganga Datt गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरा वास्तविक नाम गंगा दत्त भट्ट (Ganga Datt Bhatt) जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 2031 व आधारकार्ड नं. 234881690804 में दर्ज है। भविष्य में मुझे गंगा दत्त भट्ट पुत्र ईश्वरी दत्त भट्ट के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाय।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

गंगा दत्त भट्ट (Ganga Datt Bhatt)

(आर्मी नं. 1428197SPR)

पुत्र ईश्वरी दत्त भट्ट

निवासी K-159, शिवालिक नगर भेल हरिद्वार,

उत्तराखण्ड

सूचना

मैं Usha Rai W/o Late Chitra Bahadur Rai आर्मी नं0 9414915Y RANK NK मेरे पति के आर्मी अभिलेखों में त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम (METRA KUMARI RAI) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम (ANITA RAI) है, भविष्य में मेरी पुत्री को (ANITA RAI) D/O (Usha Rai W/o Late Chitra Bahadur Rai) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Usha Rai W/o Late Chitra Bahadur Rai

निवासी 358 ए नागेश्वर रोड डाकरा बाजार,

गडी कैंट देहरादून, उत्तराखण्ड।

सूचना

IN my husband service records my name is Sarveswari Devi wrongly registered. In my Aadhar & PAN Card my correct name is Sarveshwari Devi W/o Late Satya Prasad, PPO No. 231849501137, H.No. 1141, Indira Nagar Colony, Seemadwar Dehradun for all future purposes.

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Sarveshwari Devi W/o Late Satya Prasad

H.No.1141, Indira Nagar Colony,

Seemadwar Dehradun.



सूचना

It is hereby notified to the general public that my name was previously Roopa Gupta, daughter of Shri Om Prakash Gupta, resident of Rewari, Haryana. However after my marriage, I have changed my name to Mrs. Roopali Mahawar, wife of Shri Ghanshyam Mahawar. in the future. I should be known and recognized by the name Mrs. Roopali Mahawar.

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Mrs. Roopali Mahawar, wife of Shri Ghanshyam Mahawar,  
resident of Ward No. 7, Pandit  
Devdutt Marg Vikasnagar, Dehradun,  
Uttarakhand.

सूचना

मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम झेडो देवी गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम शान्ति देवी है, जो उसके स्थाई निवास प्रमाण पत्र व जाति प्रमाण पत्र में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे शान्ति देवी के नाम से जाना पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

शान्ति देवी पत्नी श्री हर सिंह  
निवासी ग्राम बायला पोस्ट बायला  
तहसील चकराता, जिला देहरादून,  
उत्तराखण्ड।

सूचना

मैंने अपना नाम प्यारी देवी से बदलकर झाबा देवी कर लिया है। भविष्य में मुझे झाबा देवी के नाम से जाना-पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

झाबा देवी पत्नी स्व. तारा सिंह  
निवासी ग्राम/पो. दिरुली, तहसील  
नरेंद्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल

## कार्यालय नगर पालिका परिषद्, बाड़ाहाट-उत्तरकाशी

### सम्पत्ति / भवनकर उपविधि-(संशोधन) 2024-25

11 दिसम्बर, 2024 ई0

पत्रांक 1178/उप0वि0भवन/सम्पत्तिकर/2024-25-

उत्तर प्रदेश गजट 17 नवम्बर, 1979 सं0 आर - 5209/21-3(5) (75-78) के द्वारा नगर पालिका उत्तरकाशी, गृह-कर (हाउस टैक्स) उपविधि के बिन्दु संख्या 7 एवं उत्तर प्रदेश गजट 2 फरवरी 1980 के द्वारा बिन्दु 8 व 23 एवं 24 को हटाते हुये उसके स्थान पर उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 127/XXXVI(3)/2021/27(1)/2021 देहरादून, 12 अप्रैल, 2021 द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002) में उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में अद्यतन संशोधन के द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002) (जिसे इसके आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 140 निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की गई है के अनुसार अनुसार निम्न आंशिक संशोधन किया गया है, एवं नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है उनसे आपति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित किया जा रहा है।

अतः समाचार पत्र में उक्त "आंशिक संशोधन सूचना" के प्रकाशन से दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 तक लिखित सुझाव एवं आपतियाँ अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् बाड़ाहाट-उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड) को प्रेषित की जा सकेंगी। वादमियाद प्राप्त आपतियाँ एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

वार्षिक मूल्यांकन:- "भवन या भूमि या दोनों, जैसी भी स्थिति हो, का पूंजीगत मूल्य, जो कि भवन के आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल या दोनों, जैसी भी स्थिति, को भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के प्रायोजनार्थ कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट / निर्माण की दर जो प्रचलन में हो, से गुणा करने पर प्राप्त मूल्य;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्पत्ति कर के अन्तर्गत सामान्य कर की दर वार्षिक मूल्य के 0.01 प्रतिशत से 1 प्रतिशत के मध्य होगी तथा पूंजीगत मूल्य आधारित सम्पत्ति कर प्रारम्भ होने के अगामी 5 वर्षों में किसी भी दशा में ठीक पूर्व के वर्ष में निर्धारित कर से कम अथवा 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, तत्पश्चात् अनुवर्ती वर्षों में सम्पत्ति कर में प्रतिवर्ष वृद्धि की अधिकतम दर नियमावली में विहित रीति से तय की जायेगी;

परन्तु यह भी कि पूंजीगत मूल्य आधारित कर का निर्धारण प्रत्येक वर्ष में एक बार किया जायेगा तथा एक अप्रैल को प्रचलित सर्किल रेट के आधार पर ही पूर्ण वर्ष का सम्पत्ति कर निर्धारित किया जायेगा।"

अनावासीय भवनों के लिए गणना निम्न भांति की जाएगी:-

i.	होमस्टे/होटल 01 कमरे से 10 कमरे का निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन के	0.025 प्रतिशत
ii.	होटल 10 कमरे से 35 कमरे का निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन के	0.050 प्रतिशत
iii.	होटल 35 कमरे से 50 कमरे का निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन के	0.075 प्रतिशत
iv.	होटल 35 कमरे से 50 कमरे का निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन के	0.10 प्रतिशत
v.	जिस अवासीय मकान / भूमि पर मोबाइल पर टावर का निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन के	0.10 प्रतिशत

ह0 (अस्पष्ट)  
अधिशासी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद्  
बाड़ाहाट-उत्तरकाशी

ह0 (अस्पष्ट)  
प्रशासक,  
नगर पालिका परिषद्  
बाड़ाहाट-उत्तरकाशी